

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 मार्च 2015—फाल्गुन 26, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2015

क्र. 1662-83-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 मार्च 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २०१५

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१५

[दिनांक १६ मार्च, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १७ मार्च, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१५ है.

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १४,२०,९४,२५,२३,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग एक लाख बयालीस हजार चौरानवे करोड़ पच्चीस लाख तेईस हजार रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	८०,५७,७२,२३,०००	८०,५७,७२,२३,०००
	भारत विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	८७,७३,१६,५६,०००	८७,७३,१६,५६,०००
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	३,३७,२८,२८,०००	६९,९३,५०,०००	४,०७,२१,७८,०००
		पूंजी	२७,१३,४८,०००	०	२७,१३,४८,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	६०,६४,४८,०००	०	६०,६४,४८,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	४९,६३,३६,५३,०००	३७,००,०००	४९,६३,७३,५३,०००
		पूंजी	२,४८,०९,५५,०००	०	२,४८,०९,५५,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ४०,१५,३२,००० पूंजी १,३३,०१,०००	२,०१,००० ०	४०,१७,३३,००० १,३३,०१,०००
०५.	जेल	राजस्व २,७०,६४,१२,०००	५०,०००	२,७०,६४,६२,०००
०६.	वित्त	राजस्व १,३५,६९,६२,९६,००० पूंजी १,८१,०५,०२,०००	१७,२८,४०,००० ०	१,३५,८६,९१,३६,००० १,८१,०५,०२,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व २५,७३,७३,३४,०००	१०,६०,०००	२५,७३,८३,९४,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व १२,४७,४२,५४,००० पूंजी ४१,१०,२०,०००	६,८६,००,००० ०	१२,५४,२८,५४,००० ४१,१०,२०,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व ६०,८१,९०,००० पूंजी ३,००,०१,०००	१,००,००० ०	६०,८२,९०,००० ३,००,०१,०००
१०.	वन	राजस्व २२,४१,४३,७८,००० पूंजी ६०,००,००,०००	८०,००,००० ०	२२,४२,२३,७८,००० ६०,००,००,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व ११,९१,२२,५३,००० पूंजी ५,८६,५२,८१,०००	७,०२,००० १०,००,०००	११,९१,२९,५५,००० ५,८६,६२,८१,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व ५४,७१,४२,८९,००० पूंजी ३७,३२,५६,०३,०००	२,३०,००,००,००० ०	५७,०१,४२,८९,००० ३७,३२,५६,०३,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व १८,८१,२२,७१,०००	२०,००,०००	१८,८१,४२,७१,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व ६,७७,०४,३४,००० पूंजी ३१,८६,६०,०००	४,३०,००० ०	६,७७,०८,६४,००० ३१,८६,६०,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
१५. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२३,२३,२५,२७,०००	०	२३,२३,२५,२७,०००
	पूंजी	६०,००,००,०००	०	६०,००,००,०००
१६. मछली पालन	राजस्व	६३,६४,२५,०००	३,००,०००	६३,६७,२५,०००
	पूंजी	३५,००,०००	०	३५,००,०००
१७. सहकारिता	राजस्व	४,९८,९३,६४,०००	१,५०,०००	४,९८,९५,१४,०००
	पूंजी	२,३२,२९,८०,८००	०	२,३२,२९,८०,८००
१८. श्रम	राजस्व	१,८२,२४,३३,०००	२,००,०००	१,८२,२६,३३,०००
१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	३९,८३,६१,५०,०००	४६,००,०००	३९,८४,०७,५०,०००
	पूंजी	७१,३५,०२,०००	०	७१,३५,०२,०००
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	५,२२,८६,१२,०००	१,००,००,०००	५,२३,८६,१२,०००
	पूंजी	७,६८,६८,१४,०००	०	७,६८,६८,१४,०००
२१. लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	१,०२,५०,०६,०००	०	१,०२,५०,०६,०००
	पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
२२. नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	६,७९,६८,२६,०००	१,००,०००	६,७९,६९,२६,०००
	पूंजी	२,७१,२४,२२,०००	३३,५०,०००	२,७१,५७,७२,०००
२३. जल संसाधन	राजस्व	८,३३,६७,३६,०००	१०,००,०००	८,३३,७७,३६,०००
	पूंजी	२५,००,४२,४६,०००	१,००,००,०००	२५,०१,४२,४६,०००
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	११,९२,७४,७४,०००	२,००,००,०००	११,९४,७४,७४,०००
	पूंजी	२२,२८,२३,०१,०००	९४,५०,००,०००	२३,२२,७३,०१,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२५.	खनिज साधन	राजस्व ३८,१२,५५,०००	६,००,०५,००,०००	६,३८,१७,५५,०००
२६.	संस्कृति	राजस्व १,२१,१९,८५,००० पूंजी १,२०,१०,०००	० ०	१,२१,१९,८५,००० १,२०,१०,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व ६९,७७,२२,८६,००० पूंजी २,३३,५०,१९,०००	२,०५,००० ०	६९,७७,२४,९१,००० २,३३,५०,१९,०००
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व ७२,४३,५२,०००	३२,७०,०००	७२,७६,२२,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व ७,२८,३१,९९,००० पूंजी ५०,००,०००	८३,५२,६९,००० ०	८,११,८४,६८,००० ५०,००,०००
३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व ५,५३,००,१५,००० पूंजी १५,०८,५५,००,०००	७,००,००० ०	५,५३,०७,१५,००० १५,०८,५५,००,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व १,३४,८४,२८,०००	०	१,३४,८४,२८,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व २,४९,५६,६९,०००	०	२,४९,५६,६९,०००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व १६,१९,७६,८८,०००	१०,००,०००	१६,१९,८६,८८,०००
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व १,६८,५१,५७,०००	३,००,०००	१,६८,५४,५७,०००
३५.	पुनर्वास	राजस्व ७२,०४,०००	५०,०००	७२,५४,०००
३६.	परिवहन	राजस्व १,१४,२३,१४,००० पूंजी २०,००,०१,०००	४,००,००० ०	१,१४,२७,१४,००० २०,००,०१,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
३७.	पर्यटन	राजस्व ७५,३४,२३,००० पूंजी ४८,००,०९,०००	० ०	७५,३४,२३,००० ४८,००,०९,०००
३८.	आयुष	राजस्व ३,६९,२६,१६,००० पूंजी ५,००,००,०००	१०,००,००० ०	३,६९,३६,१६,००० ५,००,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व ११,३३,८२,८३,००० पूंजी १,१४,२०,००,०००	१,६०,००० ०	११,३३,८४,४३,००० १,१४,२०,००,०००
४०.	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट	राजस्व ११,६२,०२,००० पूंजी १,५८,३७,१८,०००	८०,००० ०	११,६२,८२,००० १,५८,३७,१८,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व ५९,०८,०६,७४,००० पूंजी २६,९९,२९,७६,०००	० १५,००,०००	५९,०८,०६,७४,००० २६,९९,४४,७६,०००
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	पूंजी ८,५५,१२,६८,०००	०	८,५५,१२,६८,०००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व ९२,१०,३५,००० पूंजी २०,००,०१,०००	० ०	९२,१०,३५,००० २०,००,०१,०००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व १७,२५,०१,१९,००० पूंजी ४४,४४,६३,०००	५२,००,००० ०	१७,२५,५३,१९,००० ४४,४४,६३,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व १,३०,५५,५०,००० पूंजी ५,११,३०,२४,०००	० १०,००,०००	१,३०,५५,५०,००० ५,११,४०,२४,०००
४६.	विज्ञान और टेक्नालॉजी	राजस्व २,०७,८३,५४,००० पूंजी ६,१०,००,०००	० ०	२,०७,८३,५४,००० ६,१०,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
४७. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	५,३४,२९,०७,०००	०	५,३४,२९,०७,०००
	पूंजी	६७,६५,००,०००	०	६७,६५,००,०००
४८. नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	१४,८३,६६,०००	०	१४,८३,६६,०००
	पूंजी	१६,४०,४८,२८,०००	२०,००,०००	१६,४०,६८,२८,०००
४९. अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	९५,२२,६३,०००	१,०००	९५,२२,६४,०००
५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	४,४९,७९,५८,०००	६,००,०००	४,४९,७७,५८,०००
५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	१,१७,२३,११,०००	३०,०००	१,१७,२३,४१,०००
५२. आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	३३,३२,९४,७०,०००	०	३३,३२,९४,७०,०००
	पूंजी	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
५३. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	२,८०,०७,१०,०००	०	२,८०,०७,१०,०००
	पूंजी	६८,९६,८२,०००	०	६८,९६,८२,०००
५४. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	९७,५०,००,०००	०	९७,५०,००,०००
५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	२८,४७,८०,०८,०००	१५,००,०००	२८,४७,९५,०८,०००
	पूंजी	२५,०२,०५,०००	०	२५,०२,०५,०००
५६. ग्रामोद्योग	राजस्व	२,१८,२१,८८,०००	०	२,१८,२१,८८,०००
	पूंजी	६,६९,५०,०००	०	६,६९,५०,०००
५७. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	२,४४,७५,९९,०००	०	२,४४,७५,९९,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	१९,९६,९९,७३,०००	०	१९,९६,९९,७३,०००
	पूंजी	३,००,००,०००	०	३,००,००,०००
५९. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
६०. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व	१८,४८,००,०००	०	१८,४८,००,०००
	पूंजी	२,१३,०३,००,०००	०	२,१३,०३,००,०००
६१. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	४९,३४,०७,०००	०	४९,३४,०७,०००
	पूंजी	२,६३,७०,८९,०००	०	२,६३,७०,८९,०००
६२. पंचायत	राजस्व	१,७५,७१,६६,०००	१,२०,०००	१,७५,७२,८६,०००
६३. अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व	६२,९०,८९,०००	०	६२,९०,८९,०००
६४. अनुसूचित जाति उप योजना	राजस्व	३८,४७,६७,९५,०००	०	३८,४७,६७,९५,०००
	पूंजी	२४,८८,६३,९९,०००	०	२४,८८,६३,९९,०००
६५. विमानन	राजस्व	२२,३४,८५,०००	०	२२,३४,८५,०००
	पूंजी	२,०००	०	२,०००
६६. पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	८,८०,४५,०८,०००	२०,०००	८,८०,४५,२८,०००
	पूंजी	६,८५,००,०००	०	६,८५,००,०००
६७. लोक निर्माण कार्य— भवन	राजस्व	६,४१,१०,१५,०००	१,५०,००,०००	६,४२,६०,१५,०००
	पूंजी	२,३२,९०,७६,०००	०	२,३२,९०,७६,०००
६८. आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	४८,९०,४३,०००	०	४८,९०,४३,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
६९. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	राजस्व	१२,५०,७०,०००	०	१२,५०,७०,०००
	पूँजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
७०. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	७,७८,८८,०००	०	७,७८,८८,०००
७१. सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व	१,३८,००,०१,०००	०	१,३८,००,०१,०००
	पूँजी	१,३७,००,०१,०००	०	१,३७,००,०१,०००
७२. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व	९४,५०,३४,०००	०	९४,५०,३४,०००
	पूँजी	३,३०,०२,०००	०	३,३०,०२,०००
७३. चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	५,३२,४५,९८,०००	०	५,३२,४५,९८,०००
	पूँजी	३९,६६,०७,०००	०	३९,६६,०७,०००
७४. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,११,२४,३५,०२,०००	०	१,११,२४,३५,०२,०००
	पूँजी	५०,००,०००	०	५०,००,०००
७५. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	५५,५९,७५,००,०००	२,५३,०६,००,०००	५८,१२,८१,००,०००
	पूँजी	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
७६. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व	५१,०४,८३,०००	०	५१,०४,८३,०००
	पूँजी	३,६०,००,०००	०	३,६०,००,०००
७७. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	२३,६४,१३,७०,०००	६०,००,०००	२३,६४,७३,७०,०००
	पूँजी	७१,७२,००,०००	०	७१,७२,००,०००
योग	राजस्व	१०,१०,२७,१०,४१,०००	९३,२७,२६,११,०००	११,०३,५४,३६,५२,०००
	पूँजी	२,२८,७०,३३,६५,०००	८८,६९,५५,०६,०००	३,१७,३९,८८,७१,०००
वृहद-योग :		१२,३८,९७,४४,०६,०००	१,८१,९६,८१,१७,०००	१४,२०,९४,२५,२३,०००

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2015

क्र. 1663-83-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 8 OF 2015

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2015.

[Received the assent of the Governor on the 16th March, 2015 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 17th March, 2015.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2015-2016.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2015.

Issue of Rs. 14,20,94,25,23,000 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2015-2016.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rupees One Lakh Fourty Two Thousand Ninety Four Crore Twenty Five Lakh Twenty Three Thousand towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2015-2016 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sum authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
..	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt.			
	Revenue	0	80,57,72,23,000	80,57,72,23,000
..	Charged Appropriation-Public Debt.			
	Capital	0	87,73,16,56,000	87,73,16,56,000
01.	General Administration			
	Revenue	3,37,28,28,000	69,93,50,000	4,07,21,78,000
	Capital	27,13,48,000	0	27,13,48,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department			
	Revenue	60,64,48,000	0	60,64,48,000
03.	Police			
	Revenue	49,63,36,53,000	37,00,000	49,63,73,53,000
	Capital	2,48,09,55,000	0	2,48,09,55,000
04.	Other expenditure pertaining to Home Department			
	Revenue	40,15,32,000	2,01,000	40,17,33,000
	Capital	1,33,01,000	0	1,33,01,000
05.	Jail			
	Revenue	2,70,64,12,000	50,000	2,70,64,62,000
06.	Finance			
	Revenue	1,35,69,62,96,000	17,28,40,000	1,35,86,91,36,000
	Capital	1,81,05,02,000	0	1,81,05,02,000
07.	Commercial Tax			
	Revenue	25,73,73,34,000	10,60,000	25,73,83,94,000
08.	Land Revenue and District Administration			
	Revenue	12,47,42,54,000	6,86,00,000	12,54,28,54,000
	Capital	41,10,20,000	0	41,10,20,000
09.	Expenditure pertaining to Revenue Department			
	Revenue	60,81,90,000	1,00,000	60,82,90,000
	Capital	3,00,01,000	0	3,00,01,000
10.	Forest			
	Revenue	22,41,43,78,000	80,00,000	22,42,23,78,000
	Capital	60,00,00,000	0	60,00,00,000
11.	Commerce, Industry and Employment			
	Revenue	11,91,22,53,000	7,02,000	11,91,29,55,000
	Capital	5,86,52,81,000	10,00,000	5,86,62,81,000
12.	Energy			
	Revenue	54,71,42,89,000	2,30,00,00,000	57,01,42,89,000
	Capital	37,32,56,03,000	0	37,32,56,03,000
13.	Formers Welfare and Agriculture Development			
	Revenue	18,81,22,71,000	20,00,000	18,81,42,71,000
14.	Animal Husbandry			
	Revenue	6,77,04,34,000	4,30,000	6,77,08,64,000
	Capital	31,86,60,000	0	31,86,60,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
15.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub-Plan			
	Revenue	23,23,25,27,000	0	23,23,25,27,000
	Capital	60,00,00,000	0	60,00,00,000
16.	Fisheries			
	Revenue	63,64,25,000	3,00,000	63,67,25,000
	Capital	35,00,000	0	35,00,000
17.	Co-operation			
	Revenue	4,98,93,64,000	1,50,000	4,98,95,14,000
	Capital	2,32,29,80,000	0	2,32,29,80,000
18.	Labour			
	Revenue	1,82,24,33,000	2,00,000	1,82,26,33,000
19.	Public Health and Family Welfare			
	Revenue	39,83,61,50,000	46,00,000	39,84,07,50,000
	Capital	71,35,02,000	0	71,35,02,000
20.	Public Health Engineering			
	Revenue	5,22,86,12,000	1,00,00,000	5,23,86,12,000
	Capital	7,68,68,14,000	0	7,68,68,14,000
21.	Public Services and Management			
	Revenue	1,02,50,06,000	0	1,02,50,06,000
	Capital	5,00,00,000	0	5,00,00,000
22.	Urban Development and Environment			
	Revenue	6,79,68,26,000	1,00,000	6,79,69,26,000
	Capital	2,71,24,22,000	33,50,000	2,71,57,72,000
23.	Water Resources Department			
	Revenue	8,33,67,36,000	10,00,000	8,33,77,36,000
	Capital	25,00,42,46,000	1,00,00,000	25,01,42,46,000
24.	Public Works—Roads and Bridges			
	Revenue	11,92,74,74,000	2,00,00,000	11,94,74,74,000
	Capital	22,28,23,01,000	94,50,00,000	23,22,73,01,000
25.	Mineral Resources			
	Revenue	38,12,55,000	6,00,05,00,000	6,38,17,55,000
26.	Culture			
	Revenue	1,21,19,85,000	0	1,21,19,85,000
	Capital	1,20,10,000	0	1,20,10,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
27. School Education (Primary Education)	Revenue	69,77,22,86,000	2,05,000	69,77,24,91,000
	Capital	2,33,50,19,000	0	2,33,50,19,000
28. State Legislature	Revenue	72,43,52,000	32,70,000	72,76,22,000
29. Law and Legislative Affairs	Revenue	7,28,31,99,000	83,52,69,000	8,11,84,68,000
	Capital	50,00,000	0	50,00,000
30. Rural Development	Revenue	5,53,00,15,000	7,00,000	5,53,07,15,000
	Capital	15,08,55,00,000	0	15,08,55,00,000
31. Planning Economics and Statistics	Revenue	1,34,84,28,000	0	1,34,84,28,000
32. Public Relations	Revenue	2,49,56,69,000	0	2,49,56,69,000
33. Tribal Welfare	Revenue	16,19,76,88,000	10,00,000	16,19,86,88,000
34. Social Justice	Revenue	1,68,51,57,000	3,00,000	1,68,54,57,000
35. Rehabilitation	Revenue	72,04,000	50,000	72,54,000
36. Transport	Revenue	1,14,23,14,000	4,00,000	1,14,27,14,000
	Capital	20,00,01,000	0	20,00,01,000
37. Tourism	Revenue	75,34,23,000	0	75,34,23,000
	Capital	48,00,09,000	0	48,00,09,000
38. Ayoush	Revenue	3,69,26,16,000	10,00,000	3,69,36,16,000
	Capital	5,00,00,000	0	5,00,00,000
39. Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	11,33,82,83,000	1,60,000	11,33,84,43,000
	Capital	1,14,20,00,000	0	1,14,20,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
40.	Expenditure pertaining to Water Resources Department Command Area Development	Revenue	11,62,02,000	80,000	11,62,82,000
		Capital	1,58,37,18,000	0	1,58,37,18,000
41.	Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	59,08,06,74,000	0	59,08,06,74,000
		Capital	26,99,29,76,000	15,00,000	26,99,44,76,000
42.	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Roads and Bridges	Capital	8,55,12,68,000	0	8,55,12,68,000
43.	Sports and Youth Welfare	Revenue	92,10,35,000	0	92,10,35,000
		Capital	20,00,01,000	0	20,00,01,000
44.	Higher Education	Revenue	17,25,01,19,000	52,00,000	17,25,53,19,000
		Capital	44,44,63,000	0	44,44,63,000
45.	Minor Irrigation Works	Revenue	1,30,55,50,000	0	1,30,55,50,000
		Capital	5,11,30,24,000	10,00,000	5,11,40,24,000
46.	Science and Technology	Revenue	2,07,83,54,000	0	2,07,83,54,000
		Capital	6,10,00,000	0	6,10,00,000
47.	Technical Education and Skill Development	Revenue	5,34,29,07,000	0	5,34,29,07,000
		Capital	67,65,00,000	0	67,65,00,000
48.	Narmada Valley Development	Revenue	14,83,66,000	0	14,83,66,000
		Capital	16,40,48,28,000	20,00,000	16,40,68,28,000
49.	Scheduled Caste Welfare	Revenue	95,22,63,000	1,000	95,22,64,000
50.	Horticulture and Food Processing	Revenue	4,49,71,58,000	6,00,000	4,49,77,58,000
51.	Religious Trusts and Endowments	Revenue	1,17,23,11,000	30,000	1,17,23,41,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
52.	Financial Assistance to Tribal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	33,32,94,70,000	0	33,32,94,70,000
	Capital	50,00,00,000	0	50,00,00,000
53.	Financial assistance to Urban Bodies under Schedule Castes Sub Plan			
	Revenue	2,80,07,10,000	0	2,80,07,10,000
	Capital	68,96,82,000	0	68,96,82,000
54.	Agricultural Research and Education			
	Revenue	97,50,00,000	0	97,50,00,000
55.	Women and Child Development			
	Revenue	28,47,80,08,000	15,00,000	28,47,95,08,000
	Capital	25,02,05,000	0	25,02,05,000
56.	Rural Industry			
	Revenue	2,18,21,88,000	0	2,18,21,88,000
	Capital	6,69,50,000	0	6,69,50,000
57.	Externally Aided Projects pertaining to Water Resources Department			
	Capital	2,44,75,99,000	0	2,44,75,99,000
58.	Expenditure on Relief on Account of Natural Calamities and Scarcity			
	Revenue	19,96,99,73,000	0	19,96,99,73,000
	Capital	3,00,00,000	0	3,00,00,000
59.	Externally aided Projects Pertaining to Rural Development Department			
	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
60.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes			
	Revenue	18,48,00,000	0	18,48,00,000
	Capital	2,13,03,00,000	0	2,13,03,00,000
61.	Expenditure pertaining to Bundelkhan package			
	Revenue	49,34,07,000	0	49,34,07,000
	Capital	2,63,70,89,000	0	2,63,70,89,000
62.	Panchayat			
	Revenue	1,75,71,66,000	1,20,000	1,75,72,86,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
63. Minority Welfare	Revenue	62,90,89,000	0	62,90,89,000
64. Scheduled Castes Sub Plan	Revenue	38,47,67,95,000	0	38,47,67,95,000
	Capital	24,88,63,99,000	0	24,88,63,99,000
65. Aviation	Revenue	22,34,85,000	0	22,34,85,000
	Capital	2,000	0	2,000
66. Welfare of Backward Classes	Revenue	8,80,45,08,000	20,000	8,80,45,28,000
	Capital	6,85,00,000	0	6,85,00,000
67. Public Works-Buildings	Revenue	6,41,10,15,000	1,50,00,000	6,42,60,15,000
	Capital	2,32,90,76,000	0	2,32,90,76,000
68. Financial Assistance to Tribal Area Sub-Plan-Urban Bodies	Revenue	48,90,43,000	0	48,90,43,000
69. Nomadic and Semi Nomadic Caste Welfare	Revenue	12,50,70,000	0	12,50,70,000
	Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000
70. Externally Aided Projects pertaining to Technical Education and Training Department.	Revenue	7,78,88,000	0	7,78,88,000
71. Expenditure pertaining to Shinmhast, 2016	Revenue	1,38,00,01,000	0	1,38,00,01,000
	Capital	1,37,00,01,000	0	1,37,00,01,000
72. Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation	Revenue	94,50,34,000	0	94,50,34,000
	Capital	3,30,02,000	0	3,30,02,000
73. Medical Education Department	Revenue	5,32,45,98,000	0	5,32,45,98,000
	Capital	39,66,07,000	0	39,66,07,000
74. Financial Assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	1,11,24,35,02,000	0	1,11,24,35,02,000
	Capital	50,00,000	0	50,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
75.	Financial Assistance to Urban bodies			
	Revenue	55,59,75,00,000	2,53,06,00,000	58,12,81,00,000
	Capital	25,00,00,000	0	25,00,00,000
76.	New and Renewable Energy Sources			
	Revenue	51,04,83,000	0	51,04,83,000
	Capital	3,60,00,000	0	3,60,00,000
77.	Other Expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)			
	Revenue	23,64,13,70,000	60,00,000	23,64,73,70,000
	Capital	71,72,00,000	0	71,72,00,000
Total	{ Revenue :	—	10,10,27,10,41,000	93,27,26,11,000
	{ Capital :	—	2,28,70,33,65,000	88,69,55,06,000
	Grand Total :	—	12,38,97,44,06,000	1,81,96,81,17,000
				14,20,94,25,23,000